

प्रारूप एस.एस.पी. I
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन प्रपत्र

फोटो

(संबंधित पर ✓ का निशान लगाये)

- पेंशन का प्रकार : वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता विशेष योग्यजन
- आवेदक के निवास क्षेत्र का विवरण :
जिला :
तहसील/पंचायत समिति :
ग्राम/वार्ड/करबा/शहर :
विधानसभा क्षेत्र :
लोकसभा क्षेत्र :
1. आवेदक का नाम एवं आधार कार्ड संख्या :
2. पुरुष या स्त्री : पुरुष स्त्री
3. पिता या पति का नाम :
4. धर्म :
5. व्यवसाय :
6. पति की मृत्यु/परित्यक्तता प्रमाण पत्र की तिथि (विधवा/परित्यक्तता पेंशन के प्रकरण में) : - -
7. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (प्राधिकृत चिकित्सक बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) (निःशक्तता पेंशन के प्रकरण में) : अंधता कुष्ठ रोग मुक्त श्रवण शक्ति ह्रास चलन निःशक्तता, मानसिक मंदता, कम दृष्टि, मानसिक रुग्णता प्रतिशत
8. पूरा पता :
9. जन्म तिथि एवं आयु (आवेदन की तारीख को आयु) (उल्लेखित आयु के बारे में प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है) : - - आयु : वर्ष माह पिनकोड
10. पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प : नकद मनीऑर्डर डाकघर बचत खाता बैंक बचत खाता
11. आवेदक द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलवाये गये बचत खाते का विवरण :
(i) बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम एवं पता :
बचत खाता संख्या :
12. पहचान चिन्ह : 1 2 3
13. बी.पी.एल. विवरण :
(i) बी.पी.एल. सर्वेक्षण वर्ष :
(ii) बी.पी.एल. का स्थान :
(iii) बी.पी.एल. फैमिली आई.डी. :
(iv) बी.पी.एल. मेम्बर आई.डी. :
14. आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण और उनकी आयु :
(क) पिता : आयु : वर्ष
(ख) माता : आयु : वर्ष
(ग) पति/पत्नी : आयु : वर्ष
टिप्पणी :- (i) केवल सुसंगत मर्दों को ही आयु सहित भरा जाय। विसंगत मर्दों को काट

दिया जाय।

- (ii) विशेष योग्यजन पेंशन के आवेदकों द्वारा ही माता और पिता का विवरण दिया जाना है।
 हाँ नहीं
15. क्या संबंधी/संबंधियों के कोई आय अथवा आय का कोई स्रोत है? (हाँ/नहीं) : हाँ नहीं
16. क्या कोई भी संबंधी लगातार लापता है? (हाँ/नहीं) यदि ऐसा है तो विस्तृत वर्णन (नाम, आयु, तारीख जिससे लापता हो) : हाँ नहीं
नाम :
[] आयु [] - [] - []
17. क्या कोई सम्बन्धी जीविकोपार्जन के लिए सर्वथा असमर्थ हो गया है (हाँ/नहीं), का विवरण ?
(क) पिता : आयु : [] वर्ष
(ख) माता : आयु : [] वर्ष
(ग) पति/पत्नी : आयु : [] वर्ष
18. मतदाता पहचान पत्र संख्या : [] राशनकार्ड संख्या : []
19. श्रेणी : सामान्य, ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी., अल्प संख्यक
20. आवेदक के स्वयं के सम्पर्क नम्बर : मो. [] ले.ला. []
21. आवेदक के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर : मो. [] ले.ला. []
- मो./ले.ला. धारक के आवेदक के साथ सम्बन्ध :
22. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/ करती हूँ :
(क) (i) मेरे पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा मेरे पास जीवन निर्वाह के लिए कोई आय नहीं है।
(ii) मैं रु. प्रति मास (सरकारी विभाग/निजी निकाय/संस्थान या अन्य स्रोत का नाम लिखें) से, पी.पी.ओ. संख्या आदेश संख्या के द्वारा पेंशन/निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा हूँ/कर रही हूँ।
(ख) मैंने पूर्व में वार्धक्य/विधवा/परित्यक्तता/विशेष योग्यजन पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है/नहीं किया है। (यदि पहले प्रस्तुत किया गया हो तो यह लिखें कि क्या वह ली है या अस्वीकृत कर दिया गया है)।
(ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मैं राजस्थान में गत 7 वर्षों से स्थाई रूप से निवास कर रहा हूँ।
(घ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (नेशनल ट्रस्ट एक्ट) के अन्तर्गत अभिभावक नियुक्ति पत्र संलग्न है।
(ङ) मेरे द्वारा सूचित उपर्युक्त समस्त विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(असंगत मदों को काट दिया जाये)

स्थान :
दिनांक : [] - [] - []

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
या दायें/बायें अंगूठे का
निशान

23. प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र संसद या विधानसभा नगर परिषद/नगर पालिका बोर्ड निगम के सदस्य या पंचायत के सरपंच/पंचायत समिति के प्रधान/जिला परिषद के प्रमुख या राज्य अथवा केन्द्र के राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

मैं श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी को गत वर्षों से जानता हूँ।
उसके पहचान के चिन्ह नीचे दिये जा रहे हैं।

1.

2.

यह स्वस्थ चित्त/विक्षिप्त है।

इस आवेदन में दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनांक :

प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति
के हस्ताक्षर और पद नाम और पूरा पता

टिप्पणी :-

- (1) यदि पेंशनर विक्षिप्त होने के कारण अपने हस्ताक्षर करने/अंगूठा लगाने में असमर्थ हो तो पेंशनर का पेंशनर द्वारा मरण पोषण करने का जिम्मा लेने वाला संरक्षक आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकेगा।
- (2) संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट के आकार की फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करें।

